

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 339]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 12 दिसम्बर 2024—अग्रहायण 21, शक 1946

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म. प्र.)—462 011

भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2024

अधिसूचना

क्र. एफ-65-NN-02-2024-पाँच-1395.—मध्यप्रदेश, नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 22 एवं मध्यप्रदेश, नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरीय निकायों के उप निर्वाचन वर्ष 2024 (उत्तरार्द्ध) में माह दिसम्बर, 2024 को पार्षद पद के लिए निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं:—

स. क्र.	नगरपालिक निगम / नगरपालिका परिषद् / नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित.	पद पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद अंकों शब्दों में में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	नगरपालिक निगम, ग्वालियर जिला ग्वालियर.	पार्षद	39	उन्तालीस	अंजली राजू पलैया	भारतीय जनता पार्टी
2.	नगरपालिक निगम, रीवा जिला रीवा.	पार्षद	10	दस	अमिता वीरेन्द्र सिंह	भारतीय जनता पार्टी
3.	नगरपालिका परिषद्, गुना जिला गुना.	पार्षद	10	दस	विनोद कल्याण सिंह लोधा	भारतीय जनता पार्टी
4.	नगरपालिका परिषद्, सारणी जिला बैतूल.	पार्षद	33	तैंतीस	रेखा सुनील भलावी	इंडियन नेशनल काँग्रेस

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	नगर परिषद्, बरेली जिला रायसेन.	पार्षद	09	नौ	पीयूष मालवीय	निर्दलीय
6.	नगर परिषद्, जैतहरी जिला अनूपपुर	पार्षद	06	छह	हेमलता मोटवानी	भारतीय जनता पार्टी
7.	नगर परिषद्, निवास जिला मण्डला.	पार्षद	13	तेरह	शान्ती बाई सम्पत	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अभिषेक सिंह)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.